



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 15-2022] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 12, 2022 (CHAITRA 22, 1944 SAKA)

STATISTICAL

हरियाणा सरकार

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

औद्योगिक श्रमिकों के लिए माह अगस्त, 2021 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक

दिनांक 21 फरवरी, 2022

पी०ओ०बी० संख्या 1278.— नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छः चुने हुये केन्द्रों नामतः अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के अगस्त, 2021 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं। इन सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 2016 पर श्रमिक वर्ग के घरेलू व्यय में दर्ज वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता (खुदरा) भावों को प्रकट करता है जैसा कि परिवार आय-व्यय सर्वेक्षण 2016 से पता चलता है।

2. इन सूचकांकों के संकलन में 217 से अधिक वस्तुओं/सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है।

एन० आर० श्योराण,
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT**ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT, HARYANA****Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers for the month of August, 2021**

The 21st February, 2022

POB No. 1278.—In the statement given below group-wise index numbers are given for six selected centres viz: Ambala, Bahadurgarh, Hisar, Rewari, Panipat and Sonipat for the month of August, 2021. These indices aim at measuring the change over the base year 2016 in the consumer (retail) prices of goods and services that entered in domestic expenditure of working class as per Family Income-Expenditure Survey conducted in 2016.

2. For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities/services are taken into account.

On (Base Year 1982=100)

क्रं० नं० Sr. No.	वर्ग Group	अम्बाला Ambala	बहादुरगढ़ Bahadurgarh	हिसार Hisar	रेवाड़ी Rewari	पानीपत Panipat	सोनीपत Sonipat
1.	खाद्य एवं पेय पदार्थ Food and Beverages	126.09	124.45	125.81	126.21	127.14	125.93
2.	पान, सुपारी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants	145.54	145.85	138.56	141.43	140.09	145.59
3.	ईंधन तथा रोशनी Fuel & Light	129.90	129.50	133.66	130.69	127.60	131.38
4.	मकान Housing	116.18	117.12	118.21	116.02	116.89	117.28
5.	कपड़े व जूते Clothing & Footwear	117.82	132.33	121.77	121.60	121.89	118.04
6.	विविध Miscellaneous	118.63	119.14	119.22	117.99	120.49	117.82
7.	सामान्य सूचकांक General Index	122.08	122.94	123.08	122.36	123.25	122.24
8.	श्रृंखला घटक Linking Factor	N. A. एन० ए०	11.10	11.06	N. A. एन० ए०	11.10	11.07
9.	अनुमानित सामान्य सूचकांक (आधार 1982= 100) Estimated General Index (Base 1982=100)	N. A. एन० ए०	1364.63	1361.26	N. A. एन० ए०	1368.08	1353.20

N.A. Not applicable as these Centres were not covered under this series *i.e.* 1982.

एन० ए०— लागू नहीं होता क्योंकि यह केन्द्र 1982 की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं थे।

N. R. SHEORAN,
Director,
Economic and Statistical Analysis Department,
Haryana.

हरियाणा सरकार

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

औद्योगिक श्रमिकों के लिए माह सितम्बर, 2021 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक

दिनांक 21 फरवरी, 2022

पी०ओ०बी० संख्या 1279.— नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छः चुने हुये केन्द्रों नामतः अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के सितम्बर, 2021 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं। इन सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 2016 पर श्रमिक वर्ग के घरेलू व्यय में दर्ज वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता (खुदरा) भावों को प्रकट करता है जैसा कि परिवार आय-व्यय सर्वेक्षण 2016 से पता चलता है।

2. इन सूचकांकों के संकलन में 217 से अधिक वस्तुओं/सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है।

HARYANA GOVERNMENT

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT, HARYANA

Consumer Price Index for Industrial Workers for the month of September, 2021

The 21st February, 2022

POB No. 1279.—In the statement given below group-wise index numbers are given for six selected centres viz; Ambala, Bahadurgarh, Hisar, Rewari, Panipat and Sonipat for the month of September, 2021. These indices aim at measuring the change over the base year 2016 in the consumer (retail) prices of goods and services that entered in domestic expenditure of working class as per Family Income-Expenditure Survey conducted in 2016.

2. For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities/services are taken into account.

On (Base Year 1982=100)

क्र० नं० Sr. No.	वर्ग Group	अम्बाला Ambala	बहादुरगढ़ Bahadurgarh	हिसार Hisar	रेवाड़ी Rewari	पानीपत Panipat	सोनीपत Sonipat
1.	खाद्य एवं पेय पदार्थ Food & Beverages	127.81	125.02.	126.09	126.96	128.02	126.11
2.	पान, सुपारी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants	145.54	145.85	138.56	142.80	140.09	145.59
3.	ईंधन तथा रोशनी Fuel & Light	134.24	134.25	137.49	131.91	129.89	136.11
4.	मकान Housing	116.18	117.12	118.21	116.02	116.89	117.28
5.	कपड़े व जूते Clothing & Footwear	118.05	132.33	121.77	121.60	121.89	118.04
6.	विविध Miscellaneous	118.79	119.97	119.35	118.02	120.82	118.62
7.	सामान्य सूचकांक General Index	123.12	123.73	123.50	122.76	123.83	122.85
8.	श्रृंखला घटक Linking Factor	N. A. एन० ए०	11.10	11.06	N. A. एन० ए०	11.10	11.07
9.	अनुमानित सामान्य सूचकांक (आधार 1982= 100) Estimated General Index (Base 1982=100)	N. A. एन० ए०	1373.40	1365.91	N. A. एन० ए०	1374.51	1359.95

N.A. Not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1982.

एन० ए०— लागू नहीं होता क्योंकि यह केन्द्र 1982 की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं थे।

N. R. SHEORAN,

Director,

Economic and Statistical Analysis Department,
Haryana.

हरियाणा सरकार

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

औद्योगिक श्रमिकों के लिए माह अक्टूबर, 2021 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक

दिनांक 21 फरवरी, 2022

पी०ओ०बी० संख्या 1280.— नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छः चुने हुये केन्द्रों नामतः अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के अक्टूबर, 2021 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं। इन सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 2016 पर श्रमिक वर्ग के घरेलू व्यय में दर्ज वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता (खुदरा) भावों को प्रकट करता है जैसा कि परिवार आय-व्यय सर्वेक्षण 2016 से पता चलता है।

2. इन सूचकांकों के संकलन में 217 से अधिक वस्तुओं/सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है।

HARYANA GOVERNMENT

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT, HARYANA

Consumer Price Index for Industrial Workers for the month of October, 2021

The 21st February, 2022

POB No. 1280.—In the statement given below group-wise index numbers are given for six selected centres viz: Ambala, Bahadurgarh, Hisar, Rewari, Panipat and Sonapat for the month of October, 2021. These indices aim at measuring the change over the base year 2016 in the consumer (retail) prices of goods and services that entered in domestic expenditure of working class as per Family Income-Expenditure Survey conducted in 2016.

2. For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities/services are taken into account.

On (Base Year 1982=100)

क्र० नं० Sr. No.	वर्ग Group	अम्बाला Ambala	बहादुरगढ़ Bahadurgarh	हिसार Hisar	रेवाड़ी Rewari	पानीपत Panipat	सोनीपत Sonipat
1.	खाद्य एवं पेय पदार्थ Food & Beverages	130.90	127.57	128.63	129.37	130.70	129.28
2.	पान, सुपारी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants	145.54	145.85	138.56	142.80	140.09	145.59
3.	ईंधन तथा रोशनी Fuel & Light	137.61	135.80	139.67	133.94	133.67	137.69
4.	मकान Housing	116.18	117.12	118.21	116.02	116.89	117.28
5.	कपड़े व जूते Clothing & Footwear	118.05	132.33	121.77	121.95	121.89	118.04
6.	विविध Miscellaneous	119.54	121.49	120.45	118.81	121.18	119.17
7.	सामान्य सूचकांक General Index	127.79	125.27	124.97	124.12	125.22	124.42
8.	श्रृंखला घटक Linking Factor	N. A. एन० ए०	11.10	11.06	N. A. एन० ए०	11.10	11.07
9.	अनुमानित सामान्य सूचकांक (आधार 1982= 100) Estimated General Index (Base 1982=100)	N. A. एन० ए०	1390.50	1382.17	N. A. एन० ए०	1389.94	1377.33

N.A. Not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1982.

एन० ए०— लागू नहीं होता क्योंकि यह केन्द्र 1982 की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं थे।

N. R. SHEORAN,

Director,

Economic and Statistical Analysis Department,
Haryana.

हरियाणा सरकार

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

औद्योगिक श्रमिकों के लिए माह नवम्बर, 2021 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक

दिनांक 21 फरवरी, 2022

पी०ओ०बी० संख्या 1281.— नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छः चुने हुये केन्द्रों नामतः अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के नवम्बर, 2021 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं। इन सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 2016 पर श्रमिक वर्ग के घरेलू व्यय में दर्ज वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता (खुदरा) भावों को प्रकट करता है जैसा कि परिवार आय-व्यय सर्वेक्षण 2016 से पता चलता है।

2. इन सूचकांकों के संकलन में 217 से अधिक वस्तुओं/सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है।

HARYANA GOVERNMENT

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT, HARYANA

Consumer Price Index for Industrial Workers for the month of November, 2021

The 21st February, 2022

POB No. 1281.—In the statement given below group-wise index numbers are given for six selected centres viz: Ambala, Bahadurgarh, Hisar, Rewari, Panipat and Sonipat for the month of November, 2021. These indices aim at measuring the change over the base year 2016 in the consumer (retail) prices of goods and services that entered in domestic expenditure of working class as per Family Income-Expenditure Survey conducted in 2016.

2. For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities/services are taken into account.

On (Base Year 1982=100)

क्र० नं० Sr. No.	वर्ग Group	अम्बाला Ambala	बहादुरगढ़ Bahadurgarh	हिसार Hisar	रेवाड़ी Rewari	पानीपत Panipat	सोनीपत Sonipat
1.	खाद्य एवं पेय पदार्थ Food & Beverages	131.19	127.61	128.71	129.94	131.42	130.05
2.	पान, सुपारी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants	145.75	153.73	138.56	144.37	140.60	145.93
3.	ईंधन तथा रोशनी Fuel & Light	137.61	135.80	139.67	133.94	133.67	137.69
4.	मकान Housing	116.18	117.12	118.21	116.02	116.89	117.28
5.	कपड़े व जूते Clothing & Footwear	118.51	132.54	125.03	122.31	123.68	118.04
6.	विविध Miscellaneous	119.27	121.05	120.31	118.25	120.29	119.04
7.	सामान्य सूचकांक General Index	124.86	125.25	125.25	124.25	125.41	124.71
8.	श्रृंखला घटक Linking Factor	N. A. एन० ए०	11.10	11.06	N. A. एन० ए०	11.10	11.07
9.	अनुमानित सामान्य सूचकांक (आधार 1982= 100) Estimated General Index (Base 1982=100)	N. A. एन० ए०	1390.28	1385.27	N. A. एन० ए०	1392.05	1380.54

N.A. Not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1982.

एन० ए०— लागू नहीं होता क्योंकि यह केन्द्र 1982 की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं थे।

N. R. SHEORAN,

Director,

Economic and Statistical Analysis Department,
Haryana.

हरियाणा सरकार

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

औद्योगिक श्रमिकों के लिए माह दिसम्बर, 2021 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक

दिनांक 21 फरवरी, 2022

पी०ओ०बी० संख्या 1282.— नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छः चुने हुये केन्द्रों नामतः अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के दिसम्बर, 2021 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं। इन सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 2016 पर श्रमिक वर्ग के घरेलू व्यय में दर्ज वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता (खुदरा) भावों को प्रकट करता है जैसा कि परिवार आय-व्यय सर्वेक्षण 2016 से पता चलता है।

2. इन सूचकांकों के संकलन में 217 से अधिक वस्तुओं/सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है।

HARYANA GOVERNMENT

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT, HARYANA

Consumer Price Index for Industrial Workers for the month of December, 2021

The 21st February, 2022

POB No. 1282.—In the statement given below group-wise index numbers are given for six selected centres viz: Ambala, Bahadurgarh, Hisar, Rewari, Panipat and Sonipat for the month of December, 2021. These indices aim at measuring the change over the base year 2016 in the consumer (retail) prices of goods and services that entered in domestic expenditure of working class as per Family Income-Expenditure Survey conducted in 2016.

2. For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities/services are taken into account.

On (Base Year 1982=100)

क्र० नं० Sr. No.	वर्ग Group	अम्बाला Ambala	बहादुरगढ़ Bahadurgarh	हिसार Hisar	रेवाड़ी Rewari	पानीपत Panipat	सोनीपत Sonipat
1.	खाद्य एवं पेय पदार्थ Food & Beverages	126.92	125.24	125.30	127.58	127.70	124.92
2.	पान, सुपारी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants	153.24	153.92	150.94	146.57	141.10	153.62
3.	ईंधन तथा रोशनी Fuel & Light	137.61	135.80	139.67	134.94	133.67	137.69
4.	मकान Housing	116.18	117.12	118.21	116.02	116.89	117.28
5.	कपड़े व जूते Clothing & Footwear	123.30	132.54	127.16	123.36	123.68	120.31
6.	विविध Miscellaneous	119.75	121.98	121.02	119.37	122.04	121.14
7.	सामान्य सूचकांक General Index	123.78	124.56	124.36	123.71	124.43	123.33
8.	श्रृंखला घटक Linking Factor	N. A. एन० ए०	11.10	11.06	N. A. एन० ए०	11.10	11.07
9.	अनुमानित सामान्य सूचकांक (आधार 1982= 100) Estimated General Index (Base 1982=100)	N. A. एन० ए०	1382.62	1375.42	N. A. एन० ए०	1381.17	1365.26

N.A. Not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1982.

एन० ए०— लागू नहीं होता क्योंकि यह केन्द्र 1982 की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं थे।

N. R. SHEORAN,

Director,

Economic and Statistical Analysis Department,
Haryana.

HARYANA GOVERNMENT**ECONOMIC & STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT****Notification**

The 21st February, 2022

No. POB No. 1283.—In pursuance of Haryana Government Notification No. 7546-3-LAB-78/25638 dated the 4th September, 1970 and No. 3781-3-Lab-72 dated the 2nd June, 1972 appointing Director, Department of Economic & Statistical Analysis Haryana as Competent Authority to ascertain from time to time the working class cost of Living Index Numbers and in exercise of powers conferred by clause (d) of Section 2 of the Minimum Wages Act, 1948. I hereby declare the working class Cost of Living Index Numbers from July, 2021 to December, 2021 in respect of Ambala, Bahadurgarh, Hisar, Rewari, Panipat, Sonipat, Yamunanagar, Faridabad and Gurugram Centres and for Haryana State as under:-

**WORKING CLASS COST OF LIVING INDEX NUMBERS
(CONSUMER PRICE INDEX FOR INDUSTRIAL WORKERS OF HARYANA)**

Month/ Year 2021	Ambala	Bahadurgarh	Hisar	Rewari	Panipat	Sonipat	Haryana	Yamuna Nagar@	F/bad@	Gurugram@
July	121.30 (N.A.)	121.71 (1351.00)	122.06 (1350.00)	121.04 (N.A.)	122.34 (1358.00)	122.13 (1352.00)	121.93 (1351.00)	120.7 (335.5)	120.9 (310.7)	122.0 (N.A.)
August	122.08 (N.A.)	122.94 (1364.63)	123.08 (1361.26)	122.36 (N.A.)	123.25 (1368.08)	122.24 (1353.20)	122.67 (1359.18)	122.1 (339.4)	121.8 (313.0)	122.3 (N.A.)
September	123.12 (N.A.)	123.73 (1373.40)	123.50 (1365.91)	122.76 (N.A.)	123.83 (1374.51)	122.85 (1359.95)	123.33 (1366.50)	122.9 (341.7)	121.7 (312.8)	123.5 (N.A.)
October	124.79 (N.A.)	125.27 (1390.50)	124.97 (1382.17)	124.12 (N.A.)	125.22 (1389.94)	124.42 (1377.33)	124.83 (1383.12)	125.6 (349.2)	123.0 (316.1)	126.6 (N.A.)
November	124.86 (N.A.)	125.25 (1390.28)	125.25 (1385.27)	124.25 (N.A.)	125.41 (1392.05)	124.71 (1380.54)	124.98 (1384.78)	125.5 (348.9)	123.3 (316.9)	126.5 (N.A.)
December	123.78 (N.A.)	124.56 (1382.62)	124.36 (1375.42)	123.71 (N.A.)	124.43 (1381.17)	123.33 (1365.26)	124.06 (1374.58)	124.5 (346.1)	121.7 (312.8)	123.7 (N.A.)
Average	123.32 (N.A.)	123.91 (1375.41)	123.87 (1370.00)	123.04 (N.A.)	124.08 (1377.29)	123.28 (1364.71)	123.63 (1369.86) [2958.90]*	123.6 (343.47)	122.1 (313.72)	124.1 (N.A.)
Linking Factor	N.A.	11.10	11.06	N.A.	11.10	11.07	11.08	2.78	2.57	N.A.

- Notes :-**
- Figures for the month of July, 2021 are the estimated General Index Numbers with Base Year 2016=100 as Indices for the month of July, 2021 are released with Base Year 1982=100 and converted on new Base Year 2016=100 by dividing the Index Number on old Base Year 1982=100 by the Linking Factor given above.
 - figures in brackets except Yamunanagar, Faridabad and Gurugram Centres are the estimated General Index Numbers with Base Year 1982=100. Ambala and Rewari Centres were not included during Base Year 1982=100.
 - * : With Base Year 1972-73=100.
 - @ : These indices are furnished by Labour Bureau (Government of India) with Base Year 2016=100, however, figures in brackets related to the Base Year 2001=100. Gurugram Centre was not included during Base Year 2001=100.

(Sd.)...,
Director,
Economic & Statistical Analysis Department,
Haryana.

हरियाणा सरकार

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

औद्योगिक श्रमिकों के लिए माह जनवरी, 2022 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक

दिनांक 24 मार्च, 2022

पी०ओ०बी० संख्या 1289.— नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छः चुने हुये केन्द्रों नामतः अम्बाला, बहादुरगढ़, हिसार, रेवाड़ी, पानीपत तथा सोनीपत के जनवरी, 2022 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं। इन सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 2016 पर श्रमिक वर्ग के घरेलू व्यय में दर्ज वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता (खुदरा) भावों को प्रकट करता है जैसा कि परिवार आय-व्यय सर्वेक्षण 2016 से पता चलता है।

2. इन सूचकांकों के संकलन में 217 से अधिक वस्तुओं/सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है।

एन० आर० श्योराण,
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग,
हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT, HARYANA

Consumer Price Index for Industrial Workers for the month of January, 2022

The 24th March, 2022

POB No. 1289.—In the statement given below group-wise index numbers are given for six selected centres viz; Ambala, Bahadurgarh, Hisar, Rewari, Panipat and Sonipat for the month of January, 2022. These indices aim at measuring the change over the base year 2016 in the consumer (retail) prices of goods and services that entered in domestic expenditure of working class as per Family Income-Expenditure Survey conducted in 2016.

2. For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities/services are taken into account.

On (Base Year 1982=100)

क्र० नं० Sr. No.	वर्ग Group	अम्बाला Ambala	बहादुरगढ़ Bahadurgarh	हिसार Hisar	रेवाड़ी Rewari	पानीपत Panipat	सोनीपत Sonipat
1.	खाद्य एवं पेय पदार्थ Food & Beverages	123.8	122.7	122.7	125.1	124.7	123.0
2.	पान, सुपारी, तम्बाकू तथा नशीले पदार्थ Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants	153.2	155.1	151.9	147.0	142.8	154.0
3.	ईंधन तथा रोशनी Fuel & Light	137.6	135.8	139.7	134.3	133.7	137.7
4.	मकान Housing	118.7	120.2	120.9	119.3	119.8	120.5
5.	कपड़े व जूते Clothing & Footwear	131.6	135.5	127.2	123.4	125.8	121.5
6.	विविध Miscellaneous	119.8	122.0	122.4	120.7	123.3	121.1
7.	सामान्य सूचकांक General Index	123.7	124.3	124.1	123.6	124.3	123.2
8.	अनुमानित सामान्य सूचकांक (आधार 1982= 100) Estimated General Index (Base 1982=100)	N. A. एन० ए०	1380.0	1373.0	N. A. एन० ए०	1379.7	1363.8

N.A. Not applicable as these Centres were not covered under this series *i.e.* 1982.

एन० ए०— लागू नहीं होता क्योंकि यह केन्द्र 1982 की श्रृंखला में सम्मिलित नहीं थे।

N. R. SHEORAN,
Director,
Economic and Statistical Analysis Department,
Haryana.

Daily Rainfall Report

Date		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th	19th
Distt./ Stations																				
HISAR																				
Hisar	0	0	0	0	3.6	8.4	0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hisar Observatory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hansi	0	0	0	0	2.0	8.4	0	14.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hansi Observatory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adampur	0	0	0	0	0	10.0	0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barwala	0	0	0	0	5.0	7.0	0	14.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Narnaund	0	0	0	0	0	16.0	0	10.0	31.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bass	0	0	0	0	2.0	9.0	0	12.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uklana	0	0	0	0	0	11.0	0	15.4	31.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balsamand	0	0	0	0	2.0	5.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kheri Jalab	0	0	0	0	0	9.0	0	10.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROHTAK																				
Meham	0	0	0	0	0	8.0	0	8.0	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohtak	0	0	0	0	0	10.0	2.0	10.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalanaur	0	0	0	0	0	15.0	0	2.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sampla	0	0	0	0	0	7.0	0	11.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhan Majara	0	0	0	0	0	6.0	0	4.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GURUGRAM																				
Farukhnagar	0	0	0	0	0	3.0	0	33.0	43.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sohna	0	0	0	0	0	5.0	0	72.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gurugram	0	0	0	0	0	4.0	0	54.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pataudi	0	0	0	0	0	7.0	0	40.0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manesar	0	0	0	0	0	3.0	0	50.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wazirabad	0	0	0	0	0	5.0	0	52.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badshahpur	0	0	0	0	0	5.0	0	56.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kadipur	0	0	0	0	0	4.0	0	49.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harsaru	0	0	0	0	0	4.0	0	49.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUH																				
Tauru	0	0	0	0	0	5.0	0	62.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nuh	0	0	0	0	0	5.0	0	43.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Firozpur Zirka	0	0	0	0	0	6.0	1.0	32.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punhana	0	0	0	0	0	8.0	2.0	0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagain	0	0	0	0	0	5.0	2.0	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FATEHABAD																				
Fatehabad	0	0	0	0	4.0	13.0	0	6.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tohana	0	0	0	0	4.0	7.0	0	7.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratio	0	0	0	0	0	19.0	0	3.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bhuna	0	0	0	0	2.0	2.0	1.0	10.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulan	0	0	0	0	3.0	11.0	0	6.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jakhal	0	0	0	0	2.0	19.0	0	15.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bhattu Kalan	0	0	0	0	0	16.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JHAJJAR																				
Bahadurgarh	0	0	0	0	0	8.0	0	32.0	36.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jhajjar	0	0	0	0	0	5.5	0	28.0	29.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahalawas	0	0	0	0	0	4.0	0	36.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beri	0	0	0	0	0	7.0	0	30.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matanhail	0	0	0	0	0	4.5	0	15.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badli	0	0	0	0	0	5.5	0	30.6	26.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

for the month of January, 2022

20 th	21 st	22 nd	23 rd	24 th	25 th	26 th	27 th	28 th	29 th	30 th	31 st	No. of rainy days	Normal no. of rainy days	Total rainfall for the month of January, 2022	Normal rainfall for the month of January, 2021	Heaviest rainfall during the month of January, 2022	Total rainfall from 1.1.2022 to 31.1.2022	Normal rainfall from 1.1.2022 to 31.1.2022
1.0	0	0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.4	41.0	16.0	14.0	41.0	16.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1.4	0.0	16.8	0.0	0.0	16.8
0	0	0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1.2	36.4	13.9	14.0	36.4	13.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	0.0	NA	0.0	0.0	NA
0	0	0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0	NA	31.0	NA	15.0	31.0	NA
0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	57.0	NA	21.0	57.0	NA
2.0	0	0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	77.0	NA	31.0	77.0	NA
0	0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	47.0	NA	16.0	47.0	NA
0	0	4.4	9.8	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	71.6	NA	31.0	71.6	NA
0	0	0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	NA	29.0	NA	12.0	29.0	NA
2.0	0	0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	62.0	NA	35.0	62.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.0	4.0	452.0	46.7	189.0	452.0	46.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.8	1.3	50.2	15.6	21.0	50.2	15.6
0.50	0	2.0	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	38.9	NA	11.9	38.9	NA
0	0	2.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	1.7	59.0	20.2	18.0	59.0	20.2
0	0	2.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	31.0	NA	15.0	31.0	NA
0	0	2.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.0	47.0	13.0	19.0	47.0	13.0
0	0	2.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	83.0	NA	60.0	83.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.0	2.7	258.9	33.2	123.9	258.9	33.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	1.4	51.8	16.6	24.8	51.8	16.6
0	0	8.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.0	93.0	10.7	43.0	93.0	10.7
0	0	2.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.0	108.0	13.9	72.0	108.0	13.9
0	0	5.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.8	94.0	20.3	54.0	94.0	20.3
0	0	3.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0.6	102.0	11.7	40.0	102.0	11.7
0	0	5.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	106.0	NA	50.0	106.0	NA
0	0	6.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	89.0	NA	52.0	89.0	NA
0	0	5.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	91.0	NA	56.0	91.0	NA
0	0	6.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	95.0	NA	49.0	95.0	NA
0	0	6.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	95.0	NA	49.0	95.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.0	4.4	873.0	56.6	465.0	873.0	56.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.1	97.0	14.2	51.7	97.0	14.2
0	0	6.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.1	95.0	14.2	62.0	95.0	14.2
0	0	4.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.3	97.0	14.7	43.0	97.0	14.7
0	0	4.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	1.3	100.0	14.6	48.0	100.0	14.6
0	0	5.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0.8	64.0	9.7	40.0	64.0	9.7
0	0	5.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	90.0	NA	35.0	90.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.0	4.5	446.0	53.2	228.0	446.0	53.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	1.1	89.2	13.3	45.6	89.2	13.3
0	0	2.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	1.4	30.0	13.4	13.0	30.0	13.4
0	0	2.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	1.2	40.0	12.6	16.0	40.0	12.6
0	0	2.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	31.0	NA	19.0	31.0	NA
0	0	1.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	24.0	NA	10.0	24.0	NA
0	0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	39.0	NA	15.0	39.0	NA
0	0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	52.0	NA	19.0	52.0	NA
0	0	0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0	NA	29.0	NA	16.0	29.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.0	2.6	245.0	26.0	108.0	245.0	26.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.4	1.3	35.0	13.0	15.4	35.0	13.0
20.0	0	4.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	119.8	NA	36.6	119.8	NA
0	0	4.4	15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.5	82.1	17.1	39.0	82.1	17.1
0	0	3.2	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0.8	70.2	8.9	36.0	70.2	8.9
0	0	0.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0.9	67.0	11.9	30.0	67.0	11.9
0	0	5.0	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0.6	53.8	5.8	18.0	53.8	5.8
0	0	4.2	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	78.1	NA	30.6	78.1	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.0	3.8	471.0	43.7	190.2	471.0	43.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.2	1.0	78.5	10.9	31.7	78.5	10.9

Daily Rainfall Report

Date	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th	19th
Distt./Stations																			
KARNAL																			
Assandh	0	0	0	0	0	10.0	0	45.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karnal	0	0	0	0	0	11.0	3.0	10.0	50.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gharounda	0	0	0	0	0	6.0	0	12.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indri	0	0	0	0	0	10.0	2.0	12.0	28.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nilokheri	0	0	0	0	0	22.0	8.0	12.0	10.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karnal Observatory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ballah	0	0	0	0	0	6.0	0	4.0	7.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nigdhu	0	0	0	0	0	5.0	1.0	10.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nissing	0	0	0	0	0	8.0	0	10.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PANIPAT																			
Panipat	0	0	0	0	0	19.0	0	7.0	30.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bapoli	0	0	0	0	0	7.0	0	12.0	65.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Israna	0	0	0	0	0	8.0	0	15.0	18.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samalkha	0	0	0	0	0	9.0	0	14.0	63.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Madloda	0	0	0	0	0	6.0	0	6.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y/NAGAR																			
Jagadhari	0	0	0	0	0	19.0	0	45.0	38.0	38.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
Bilaspur	0	0	0	0	0	33.0	3.0	30.0	34.0	28.0	0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
Chhachrouli	0	0	0	0	0	21.0	0	26.0	36.0	48.0	0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
Sarswati Nagar	0	0	0	0	0	27.0	2.0	23.0	29.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radour	0	0	0	0	0	18.0	3.0	18.0	36.0	39.0	0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
Sadoura	0	0	0	0	0	15.0	4.0	20.0	18.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Khizrabad/Partap Nagar	0	0	0	0	0	22.0	6.0	26.0	38.0	32.0	0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMBALA																			
Ambala City	0	0	0	0	0	25.0	18.0	22.0	44.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambala Cantt.	0	0	0	0	0	28.0	6.0	20.0	34.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambala Observatory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nariangarh	0	0	0	0	0	29.0	5.0	37.0	22.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barara	0	0	0	0	0	20.0	2.0	18.0	20.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saha	0	0	0	0	0	12.0	2.0	26.0	31.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Shahjadpur	0	0	0	0	0	14.0	3.0	11.0	5.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mulana	0	0	0	0	0	30.0	2.0	27.0	33.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JIND																			
Jind	0	0	0	0	17.0	0	19.0	43.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0
Safidon	0	0	0	0	10.0	0	8.0	20.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Narwana	0	0	0	0	25.0	0	35.0	26.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Julana	0	0	0	0	11.0	0	7.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pilu Khera	0	0	0	0	6.0	0	11.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uchana	0	0	0	0	5.0	0	20.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alewa	0	0	0	0	15.0	10.0	20.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M/GARH																			
Mahendergarh	0	0	0	0	2.0	7.0	0	22.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Narnaul	0	0	0	0	2.0	6.0	0	37.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ateli	0	0	0	0	0	7.0	0	26.0	30.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanina	0	0	0	0	0	2.0	0	15.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nangal Chaudhery	0	0	0	0	3.0	2.0	0	12.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Satnali	0	0	0	0	2.0	6.0	0	13.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

for the month of January, 2022.

20th	21st	22nd	23rd	24th	25th	26th	27th	28th	29th	30th	31st	No. of rainy days	Normal no. of rainy days	Total rainfall for the month of January, 2022	Normal rainfall for the month of January, 2021	Heaviest rainfall during the month of January, 2022	Total rainfall from 1.1.2022 to 31.1.2022	Normal rainfall from 1.1.2022 to 31.1.2022
0	0	3.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	97.0	NA	45.0	97.0	NA
0	0	0	27.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	2.5	123.0	33.2	50.0	123.0	33.2
0	0	0	12.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	92.0	NA	60.0	92.0	NA
0	5.0	1.0	22.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	9.0	NA	91.0	NA	28.0	91.0	NA
0	5.0	3.0	31.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	9.0	NA	110.0	NA	31.0	110.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	2.7	0.0	34.5	0.0	0.0	34.5
0	0	5.0	8.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	33.0	NA	8.0	33.0	NA
0	0	0	11.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	36.0	NA	11.0	36.0	NA
0	0	0	11.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	39.0	NA	11.0	39.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.0	5.2	621.0	67.7	244.0	621.0	67.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.6	2.6	77.6	33.9	30.5	77.6	33.9
0	0	4.0	20.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	2.0	83.0	23.5	30.0	83.0	23.5
0	0	10.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	117.0	NA	65.0	117.0	NA
0	0	3.0	9.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	58.0	NA	18.0	58.0	NA
0	0	8.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	116.0	NA	63.0	116.0	NA
0	0	4.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	75.0	NA	48.0	75.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.0	2.0	449.0	23.5	224.0	449.0	23.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.2	2.0	89.8	23.5	44.8	89.8	23.5
2.0	0	0	36.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	2.9	189.0	42.4	45.0	189.0	42.4
0	0	0	44.0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	174.0	NA	44.0	174.0	NA
4.0	0	0	48.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	NA	203.0	NA	48.0	203.0	NA
2.0	0	0	26.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	NA	160.0	NA	36.0	160.0	NA
2.0	0	0	25.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0	9.0	NA	156.0	NA	39.0	156.0	NA
0	0	0	28.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	121.0	NA	28.0	121.0	NA
0	0	0	34.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	NA	177.0	NA	38.0	177.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.0	2.9	1180.0	42.4	278.0	1180.0	42.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.9	2.9	168.6	42.4	39.7	168.6	42.4
2.0	0	0	38.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	2.8	167.0	37.7	44.0	167.0	37.7
2.0	0	0	37.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	NA	144.0	NA	37.0	144.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	2.8	0.0	39.2	0.0	0.0	39.2
0	0	0	38.0	17.0	4.0	0	0	0	0	0	0	8.0	3.0	192.0	46.5	40.0	192.0	46.5
2.0	0	0	31.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	NA	128.0	NA	31.0	128.0	NA
2.0	0	0	42.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	NA	153.0	NA	42.0	153.0	NA
0	0	0	38.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	95.0	NA	38.0	95.0	NA
0	0	0	26.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	163.0	NA	33.0	163.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.0	8.6	1042.0	123.4	265.0	1042.0	123.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	2.9	148.9	41.1	37.9	148.9	41.1
0	0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.5	98.0	18.0	43.0	98.0	18.0
0	5.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	66.0	NA	20.0	66.0	NA
0	0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	2.5	107.0	11.7	35.0	107.0	11.7
0	1.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	49.0	NA	19.0	49.0	NA
0	0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	NA	39.0	NA	16.0	39.0	NA
0	0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	NA	52.0	NA	20.0	52.0	NA
0	0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	92.0	NA	35.0	92.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.0	4.0	503.0	29.7	188.0	503.0	29.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.9	2.0	71.9	14.9	26.9	71.9	14.9
0	0	11.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	1.2	53.0	9.8	22.0	53.0	9.8
0	0	12.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	0.9	79.0	8.1	37.0	79.0	8.1
0	0	11.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	79.4	NA	30.4	79.4	NA
0	0	8.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	38.0	NA	15.0	38.0	NA
0	0	10.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	43.0	NA	12.0	43.0	NA
0	0	10.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	41.0	NA	13.0	41.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.0	2.1	333.4	17.9	129.4	333.4	17.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.7	1.1	55.6	9.0	21.6	55.6	9.0

Daily Rainfall Report

Date	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th	19th
Distt./Stations																			
REWARI																			
Bawal	0	0	0	0	6.0	0	35.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Khol/Manethi	0	0	0	0	4.0	0	34.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rewari	0	0	0	0.5	8.0	1.0	25.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jatusana/Palhawas	0	0	0	1.0	6.0	0	32.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosli	0	0	0	0.5	7.0	0	30.0	22.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dharuhera	0	0	0	0	4.0	0	20.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dahina	0	0	0	0	7.0	0	25.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nahar	0	0	0	0	9.0	2	27.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PANCHKULA																			
Kalka	0	0	0	0	1.0	10.0	6.0	30.0	28.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barwala	0	0	0	0	0	6.0	4.0	15.0	18.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Morni	0	0	0	0	0	8.0	6.0	25.0	22.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Panchkula	0	0	0	0	1.0	8.0	5.0	18.0	25.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raipurani	0	0	0	0	0	6.0	4.0	15.0	18.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SONIPAT																			
Gohana	0	0	0	0	0	8.0	2.0	11.0	45.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonipat	0	0	0	0	0	12.0	0	34.0	38.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganour	0	0	0	0	0	9.0	0	28.0	45.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kharkhoda	0	0	0	0	0	9.0	0	30.0	25.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rai	0	0	0	0	0	9.0	0	8.0	40.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Khanpurkalan	0	0	0	0	0	8.0	0	21.0	52.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BHIWANI																			
Bhiwani	0	0	0	0	2.0	8.0	0	20.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loharu	0	0	0	0	2.0	8.0	0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bawani Khera	0	0	0	0	0	8.0	0	6.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siwani	0	0	0	0	0	10.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tosham	0	0	0	0	2.0	6.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bahal	0	0	0	0	6.0	4.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHARKHI DADRI																			
Dadri	0	0	0	0	0	13.0	0	11.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badra	0	0	0	0	0	3.0	0	15.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bondkalan	0	0	0	0	0	6.0	0	4.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KURUKSHETRA																			
Pehowa	0	0	0	0	0	9.0	2.0	25.0	47.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thanesar	0	0	0	0	0	13.0	0	20.0	45.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahabad	0	0	0	0	0	5.0	0	5.0	32.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ismailabad	0	0	0	0	0	16.0	0	21.0	38.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ladwa	0	0	0	0	0	13.0	3.0	6.0	27.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babain	0	0	0	0	0	12.0	0	16.0	38.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAITHAL																			
Kaithal	0	0	0	0	0	9.0	1.0	20.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guhla	0	0	0	0	0	15.0	0	30.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalayyat	0	0	0	0	1.0	9.0	8.0	35.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rajaund	0	0	0	0	0	2.0	0	18.0	34.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sivan	0	0	0	0	0	12.0	0	27.0	39.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dhand	0	0	0	0	0	5.0	0	11.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pundari	0	0	0	0	0	1.0	0	4.0	27.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Average	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

for the month of January, 2022.

20th	21st	22nd	23rd	24th	25th	26th	27th	28th	29th	30th	31st	No. of rainy days	Normal no. of rainy days	Total rainfall for the month of January, 2022	Normal rainfall for the month of January, 2021	Heaviest rainfall during the month of January, 2022	Total rainfall from 1.1.2022 to 31.1.2022	Normal rainfall from 1.1.2022 to 31.1.2022
0	8.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0.2	87.0	2.6	35.0	87.0	2.6
0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0.8	73.0	9.4	34.0	73.0	9.4
0	7.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	1.6	74.5	15.7	25.0	74.5	15.7
0	12.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	0.8	81.0	10.2	32.0	81.0	10.2
0	12.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	86.5	NA	30.0	86.5	NA
0	1.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	57.0	NA	21.0	57.0	NA
0	7.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	61.0	NA	25.0	61.0	NA
0	12.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	64.0	NA	27.0	64.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.0	3.4	584.0	37.9	229.0	584.0	37.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.5	0.9	73.0	9.5	28.6	73.0	9.5
1.0	0	0	37.0	35.0	6.0	0	10.0	0	0	0	0	11.0	2.2	212.0	51.2	48.0	212.0	51.2
0	0	0	25.0	24.0	4.0	0	0	0	0	0	0	8.0	NA	132.0	NA	36.0	132.0	NA
0	0	0	32.0	30.0	5.0	0	8.0	0	0	0	0	9.0	NA	184.0	NA	48.0	184.0	NA
1.0	0	0	35.0	28.0	4.0	0	0	0	0	0	0	10.0	NA	170.0	NA	45.0	170.0	NA
0	0	0	26.0	25.0	4.0	0	0	0	0	0	0	8.0	NA	133.0	NA	35.0	133.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.0	2.2	831.0	51.2	212.0	831.0	51.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.2	2.2	166.2	51.2	42.4	166.2	51.2
2.0	0	2.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	1.8	90.0	22.6	45.0	90.0	22.6
1.0	0	3.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	1.8	119.0	20.0	38.0	119.0	20.0
2.0	0	2.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	106.0	NA	45.0	106.0	NA
1.0	0	3.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	83.0	NA	30.0	83.0	NA
3.0	0	5.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	87.0	NA	40.0	87.0	NA
2.0	0	1.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	107.0	NA	52.0	107.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.0	3.6	592.0	42.6	250.0	592.0	42.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.2	1.8	98.7	21.3	41.7	98.7	21.3
0	0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.2	62.0	14.8	28.0	62.0	14.8
0	0	10.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0.9	50.0	6.5	16.0	50.0	6.5
0	0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	NA	22.0	NA	8.0	22.0	NA
0	0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0	0.7	22.0	13.0	10.0	22.0	13.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0	NA	16.0	NA	8.0	16.0	NA
0	0	0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	NA	36.0	NA	20.0	36.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.0	2.8	208.0	34.3	90.0	208.0	34.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	0.9	34.7	11.4	15.0	34.7	11.4
0	0	4.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.0	79.0	16.5	35.0	79.0	16.5
0	0	4.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	50.0	NA	17.0	50.0	NA
0	0	3.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	25.0	NA	8.0	25.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.0	1.0	154.0	16.5	60.0	154.0	16.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.0	51.3	16.5	20.0	51.3	16.5
1.0	1.0	1.0	14.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	NA	106.0	NA	47.0	106.0	NA
2.0	7.0	0	38.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	8.0	2.4	144.0	30.2	45.0	144.0	30.2
0	0	0	22.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	77.0	NA	32.0	77.0	NA
1.0	2.0	1.0	32.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	9.0	NA	124.0	NA	38.0	124.0	NA
0	0	0	52.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	119.0	NA	52.0	119.0	NA
0	0	0	24.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	104.0	NA	38.0	104.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.0	2.4	674.0	30.2	252.0	674.0	30.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.7	2.4	112.3	30.2	42.0	112.3	30.2
0	0	1.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	2.0	85.0	25.0	45.0	85.0	25.0
2.0	0	1.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	1.9	95.0	21.8	40.0	95.0	21.8
0	0	1.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	NA	92.0	NA	35.0	92.0	NA
0	0	1.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	1.1	70.0	14.9	34.0	70.0	14.9
0	0	2.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	87.0	NA	39.0	87.0	NA
0	0	3.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	45.0	NA	15.0	45.0	NA
0	0	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	NA	57.0	NA	27.0	57.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.0	5.0	531.0	61.7	235.0	531.0	61.7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.6	1.7	75.9	20.6	33.6	75.9	20.6

Daily Rainfall Report

[illegible]

for the month of January, 2022.

20th	21st	22nd	23rd	24th	25th	26th	27th	28th	29th	30th	31st	No. of rainy days	Normal no. of rainy days	Total rainfall for the month of January, 2022	Normal rainfall for the month of January, 2021	Heaviest rainfall during the month of January, 2022	Total rainfall from 1.1.2022 to 31.1.2022	Normal rainfall from 1.1.2022 to 31.1.2022
0	0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	1.2	49.0	11.4	17.0	49.0	11.4
0	0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	49.0	NA	16.0	49.0	NA
0	0	4.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	50.0	NA	16.0	50.0	NA
0	0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	52.0	NA	24.0	52.0	NA
0	0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	44.0	NA	20.0	44.0	NA
0	0	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	NA	39.0	NA	24.0	39.0	NA
0	0	6.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.0	NA	50.0	NA	18.0	50.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.0	1.2	333.0	11.4	135.0	333.0	11.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.7	1.2	47.6	11.4	19.3	47.6	11.4
0	0	5.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	74.0	NA	40.0	74.0	NA
0	0	5.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.6	44.0	20.5	27.0	44.0	20.5
0	0	6.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	62.0	NA	28.0	62.0	NA
0	0	5.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	96.0	NA	45.0	96.0	NA
0	0	31.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	90.0	NA	38.0	90.0	NA
0	0	6.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	88.0	NA	50.0	88.0	NA
0	0	6.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	63.0	NA	30.0	63.0	NA
0	0	5.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	74.0	NA	32.0	74.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.0	1.6	591.0	20.5	290.0	591.0	20.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.6	73.9	20.5	36.3	73.9	20.5
0	0	4.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.3	92.0	15.8	56.0	92.0	15.8
0	0	2.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	0.7	41.0	9.6	32.0	41.0	9.6
0	0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0	NA	58.0	NA	41.0	58.0	NA
0	0	3.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	1.0	60.0	12.0	29.0	60.0	12.0
0	0	2.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	NA	42.0	NA	27.0	42.0	NA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.0	3.0	293.0	37.4	185.0	293.0	37.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	1.0	58.6	12.5	37.0	58.6	12.5

(Sd.) . . . ,
Assistant Director,
for Director Land Records, Haryana.

Statement showing district wise average/normal rainfall and average number of rainy days during the month of January, 2022.

Sr. No.	District	Average rainfall in M M	Normal rainfall in M M	Above /Below normal rainfall	Average No. of Rainy days
1.	Hisar	50.2	15.6	Above normal	4.8
2.	Rohtak	51.8	16.6	Above normal	5.4
3.	Gurgaon	97.0	14.2	Above normal	5.0
4.	Nuh	89.2	13.3	Above normal	5.4
5.	Fatehabad	35.0	13.0	Above normal	5.4
6.	Jhajjar	78.5	10.9	Above normal	5.2
7.	Karnal	77.6	33.9	Above normal	6.6
8.	Panipat	89.8	23.5	Above normal	6.2
9.	Y./Nagar	168.6	42.4	Above normal	7.9
10.	Ambala	148.9	41.1	Above normal	7.7
11.	Jind	71.9	14.9	Above normal	4.9
12.	M./garh	55.6	9.0	Above normal	5.7
13.	Rewari	73.0	9.5	Above normal	5.5
14.	Panchkula	166.2	51.2	Above normal	9.2
15.	Sonipat	98.7	21.3	Above normal	7.2
16.	Bhiwani	34.7	11.4	Above normal	4.0
17.	Ch./Dadri	51.3	16.5	Above normal	5.0
18.	K./kshetra	112.3	30.2	Above normal	7.7
19.	Kaithal	75.9	20.6	Above normal	5.6
20.	Sirsa	47.6	11.4	Above normal	5.7
21.	Faridabad	73.9	20.9	Above normal	5.0
22.	Palwal	58.6	12.5	Above normal	4.4

During the month of January, 2022 above normal rainfall was recorded in all Districts of the State.

(Sd.) . . . ,
Assistant Director,
for Director, Land Records, Haryana.

Note on the condition and prospects of Crops, Public Health and Cattle of each district of the Haryana State for the month of January, 2022.

1.	Hisar	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
2.	Rohtak	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
3.	Gurugram	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
4.	Fatehabad	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
5.	Jhajjar	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
6.	Karnal	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
7.	Panipat	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
8.	Y./Nagar	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
9.	Ambala	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
10.	Jind	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
11.	M./garh	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
12.	Rewari	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
13.	Panchkula	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
14.	Sonipat	Above to normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
15.	Bhiwani	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
16.	Ch./Dadri	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
17.	K./kshetra	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
18.	Kaithal	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
19.	Sirsa	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
20.	Faridabad	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
21.	Nuh	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.
22.	Palwal	Above normal rainfall was recorded during the month under report. General condition remained normal.

(Sd.) . . . ,
Assistant Director,
for Director, Land Records, Haryana.